

W-2716

B.P.Ed. (Fourth Semester) Examination, June-2020 MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Minimum Pass Marks : 28

नोट : प्रत्येक इकाई से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

Note : Attempt **any one** question from each unit.

इकाई-I / Unit-I

- Q.1. शारीरिक शिक्षा में टेस्ट और माप की आवश्यकता और महत्व समझाइये।
Describe the need and importance of test and measurement in physical education.
- Q.2. मूल्यांकन को परिभाषित करें और इसके सिद्धांतों का वर्णन करें।
Define evaluation and describe its principles.

इकाई-II / Unit-II

- Q.3. किसी परीक्षण की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और वैधता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें।
Describe the factors affecting reliability, objectivity and validity of a test.
- Q.4. परीक्षण के प्रबंधन पर टिप्पणी लिखें।
Write a note on the administration of test.

इकाई-III / Unit-III

- Q.5. AAHPER युवा फिटनेस परीक्षण को समझाइये।
Describe AAHPER youth fitness Test
- Q.6. राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस परीक्षण समझाइये।
Describe National physical Fitness test.

इकाई-IV / Unit-IV

- Q.7. जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Jonson basketball test.
- Q.8. S.A.I. हॉकी परीक्षण समझाइये।
Describe S.A.I. Hockey test.